

जैतापुर परमाणु रिएक्टर: महाराष्ट्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के जैतापुर में **छह परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने के लिये सैद्धांतिक (प्रथम चरण) मंजूरी** दे दी है।

- जैतापुर परियोजना **भारत और फ्रांस** के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख घटक है।

परमाणु ऊर्जा

- **परिचय:**
 - "स्थायी आधार पर देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की विशाल क्षमता" होने के अलावा **परमाणु ऊर्जा स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल** है।
 - परमाणु ऊर्जा संयंत्रों ने अब तक लगभग 755 बिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है, जिससे लगभग 650 मिलियन टन **CO₂ उत्सर्जन** की बचत हुई है।
- **नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में योगदान:**
 - परमाणु ऊर्जा सहित विभिन्न स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के संयोजन के माध्यम से **नेट जीरो लक्ष्यों** को पूरा करने की उम्मीद है।
 - परियोजनाओं के पूरा होने पर **6,780 मेगावाट की वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2031 तक बढ़ाकर 22,480 मेगावाट** करने की उम्मीद है।

प्रमुख बंदि:

- **जैतापुर परमाणु रिएक्टर:**
 - जैतापुर **दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र** होगा। जो 9.6 गीगावॉट की स्थापित क्षमता वाले छह अत्याधुनिक वकिसवादी पावर रिएक्टर होने के साथ नमिन कार्बन बिजली का उत्पादन करेंगे।
 - छह परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, जिनमें से **प्रत्येक की क्षमता 1,650 मेगावाट** होगी, को फ्रांस के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया जाएगा।
 - यह परियोजना भारत और फ्रांस के बीच कम कार्बन भविष्य के प्रतिप्रतिबद्धता की मजबूत साझेदारी को मूरत रूप देगी और हज़ारों स्थानीय नौकरियों के साथ महाराष्ट्र को सीधे लाभ पहुँचाएगी।
- **भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थिति:**
 - भारत बिजली उत्पादन के उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा के दोहन की संभावना का पता लगाने के लिये सचेत रूप से आगे बढ़ा है।
 - इस दशा में 1950 के दशक में होमी भाभा द्वारा **त्रिसंखीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम** तैयार किया गया था।
 - परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 को दो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्त्वों यूरेनियम और थोरियम के उपयोग के निर्धारित उद्देश्यों के साथ तैयार तथा कार्यान्वित किया गया था।
 - **परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिये किये गए अन्य उपाय:**
 - 10 स्वदेशी 700 मेगावाट 'भारी जल दाबित रिएक्टरों' (PHWR) के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।
 - 'भारी जल दाबित रिएक्टर' एक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है, जो आमतौर पर अपने ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करता है। यह अपने शीतलक और मंदक के रूप में भारी जल (ड्यूटेरियम ऑक्साइड- D₂O) का उपयोग करता है।
 - वर्तमान में भारत में 6780 इलेक्ट्रिक मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं।
 - इसमें से 18 रिएक्टरों में 'भारी जल दाबित रिएक्टर' (PHWRs) और चार 'हल्के जलयुक्त रिएक्टर' (LWRs) हैं।
 - परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में भी संशोधन किया गया है, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संयुक्त उपकरणों को

परमाणु ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापति करने में सक्षम बनाया जा सके ।

वर्तमान में संचालति परमाणु ऊर्जा संयंत्र	नरिमाणाधीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र	नयिोजति परमाणु ऊर्जा संयंत्र
<ul style="list-style-type: none">रावतभाटा (राजस्थान)तारापुर (महाराष्ट्र)कुडनकुलम् (तमलिनाडु)काकरापार (गुजरात)कलपक्कम् (तमलिनाडु)नरोरा (उत्तर प्रदेश)कैगा (कर्नाटक)	<ul style="list-style-type: none">काकरापार 3 और 4 (गुजरात)रावतभाटा (राजस्थान)कुडनकुलम् 3 और 4 (तमलिनाडु)कलपक्कम् PFBR (तमलिनाडु)	<ul style="list-style-type: none">जैतापुर (महाराष्ट्र)कोववाडा (आंध्र प्रदेश)मीठी वरिदी (गुजरात)हरपुिर (पश्चमि बंगाल)गोरखपुर (हरयाणा)भीमपुर (मध्य प्रदेश)माही बांसवाडा (राजस्थान)कैगा (कर्नाटक)चुटका (मध्य प्रदेश)तारापुर (महाराष्ट्र)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/jaitapur-nuclear-reactors-maharashtra>

